



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 माघ 1931 (श०)
(सं० पटना 73) पटना, बुधवार, 27 जनवरी 2010

सं० 2/सी०— 1075/2007—533

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

18 जनवरी 2010

श्री अजय कुमार द्विवेदी, वि० प्र० से०, कोटि क्रमांक-519/04 तत्कालीन विशेष पदाधिकारी (अधिसूचित क्षेत्र विनियमन) राँची के विरुद्ध राँची शहर के मौजा अशोक नगर इलाका में 198 एकड़ जमीन का मुआवजादर बाजार दर से काफी कम निर्धारित किये जाने एवं डेवलपर्स कॉर्पोरेटिव हाउसिंग सोसाईटी को नाजायज लाभ पहुँचाने संबंधी प्रतिवेदित आरोपों पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियामावली 2005 के नियम 9 (1) 'क' में निहित प्रावधानों के आलोक में श्री द्विवेदी को विभागीय संकल्प सं० 13624, दिनांक 31 दिसम्बर 2008 के प्रभाव से अगले आदेश तक के लिये निलम्बित किया गया।

2. श्री द्विवेदी द्वारा निलम्बन के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय पटना में एक याचिका संख्या— सी० डबलू० जे० सी०, सं०— 3505/2009 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 7 नवम्बर 2009 को आदेश पारित कर श्री द्विवेदी के निलम्बन आदेश को रद्द (Quash) कर दिया गया।

मा10 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में श्री द्विवेदी को निलम्बन की तिथि से निलम्बन से मुक्त किया जाता है। श्री द्विवेदी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित रहेगी।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति श्री द्विवेदी, वि0 प्र0 से0 कोटि क्रमांक—519/04 मुख्यालय, कोशी प्रमण्डल सहरसा एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
चन्द्र प्रकाश सहाय,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 73-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>